



: : आयुक्त (अपील) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : :
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,
राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा :-

DIN - 20210564SX0000444CE2

क	अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No.	मूल आदेश सं / OIO No.	दिनांक / Date
	V2/93/RAJ/2020	15/D/AC/2020-21	27.7.2020

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-20-2021

आदेश का दिनांक /
Date of Order: **25.05.2021** जारी करने की तारीख /
Date of issue: **27.05.2021**

श्री अखिलेश कुमार, आयुक्त (अपील), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by **Shri Akhilesh Kumar**, Commissioner (Appeals),
Rajkot

ग अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सेवाकर / वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम द्वारा उपयुक्तलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant
Commissioner, Central Excise/ST / GST,
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. Gangadhar Industries, 80 Feet Road, Plot No. 997/998, Street No. 6, Aji GIDC, Rajkot.

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (मिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयं आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demanded/interest/penalty/refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयं आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994 to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपये से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा। /
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
(iv) मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समयावधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पत्री कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in



:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Gangadhar Industries, Rajkot (hereinafter referred to as "appellant") has filed Appeal No. V2/93/RAJ/2020 against Order-in-Original No. 15/D/AC/2020-21 dated 27.7.2020 (hereinafter referred to as "impugned order") passed by the Joint Commissioner (in situ), Central GST & Central Excise, Rajkot-I Division (hereinafter referred to as "adjudicating authority").

2. The facts of the case, in brief, are that the appellant was engaged in the manufacture of Generator Set falling under Chapter 85 of the Central Excise Tariff Act, 1985 and was registered with Central Excise Department having Registration No. ABMPD3919LXM001. During the course of Audit of the records of the Appellant undertaken by the Departmental officers, it was observed that they had availed Cenvat credit of Service Tax paid on outward GTA service used for transportation of their finished goods from their factory to their buyers' premises. Since, factory gate was place of removal, any services availed beyond place of removal was alleged to be not proper in view of definition of "input service" as given at Rule 2(l) of the Cenvat Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as "CCR, 2004") and therefore, the Appellant was not eligible to avail Cenvat credit of service tax of Rs. 1,51,609/- paid on outward GTA service during the period from April, 2014 to June, 2017. The Appellant paid amount of Rs. 1,51,609/- along with interest of Rs. 80,080/- and penalty of Rs. 22,741/- but subsequently informed that they disagreed with audit objection.

2.1 Show Cause Notice No. VI/(A)/8-214/Circle-I/AG-3/2018-19 dated 6.9.2019 was issued to the appellant for recovery of wrongly availed Cenvat credit amount of Rs. 1,51,609/- along with interest under Rule 14 of the CCR, 2004 read with Section 11A(4) of the Central Excise Act, 1944 and proposing imposition of penalty under Rule 15 read with Section 11AC of the Act.

2.2 The above Show Cause Notice was adjudicated vide the impugned order which disallowed Cenvat credit of Rs. 1,51,609/- and ordered for its recovery along with interest, under Rule 14 of CCR, 2004 read with Section 11A(4) of the Central Excise Act, 1944 and imposed penalty of Rs. 22,741/- under Rule 15 of CCR, 2004 read with Section 11AC of the Act.

3. Being aggrieved, the appellant preferred the present appeal on the following grounds, *inter alia*, contending that,

- (i) The adjudicating authority has confirmed the demand by relying upon Hon'ble Supreme Court's decision passed in the case of Ultratech Cement Ltd and Board's Circular No. 1065/4/2018-CX dated 8.6.2018.



However, the adjudicating authority has overlooked para 6 and para 7 of the said Circular wherein it has been clearly mentioned that at the time of issuing new Show Cause Notice should not invoke extended period of limitation in cases where an alternate interpretation was taken by the Assessee before the date of Supreme Court's judgment. The adjudicating authority at para 10 of the impugned order has held that this is a fit case for invocation of extended period of limitation prescribed under Section 11(4) of the Central Excise Act, 1944. This fact should be considered while deciding their appeal and benefit should be provided to them.

(ii) In view of above, demand should be dropped along with interest and penalty.

4. Personal hearing in the matter was conducted in virtual mode through video conferencing on 24.3.2021. Shri Rushi Upadhyay, C.A. appeared on behalf of the Appellant. He reiterated the submissions made in grounds of appeal memorandum.

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, and grounds of appeal memorandum. The issue to be decided in the present appeal is whether the impugned order passed by the adjudicating authority disallowing Cenvat credit of service tax paid on outward transportation charges by invoking extended period of limitation is correct, proper and legal or not.

6. I find that the Appellant had availed Cenvat credit of service tax paid on outward GTA service during the period from April, 2014 to June, 2017. The adjudicating authority disallowed said Cenvat credit of service tax on the ground that outward GTA service was availed by the Appellant for transportation of their finished goods from their factory to customer's premises i.e. beyond place of removal, and hence, not covered under definition of "input service" in terms of Rule 2(l) of CCR, 2004.

6.1 The Appellant has not disputed that they had availed Cenvat credit of service tax paid on GTA Service for transportation of their finished goods from their factory to premises of their buyers. The Appellant has also not disputed the said service was not covered within the definition of 'input service' in terms of Rule 2(l) of CCR, 2004 but the Appellant has contested that demand was raised invoking extended period of limitation under Section 11A(4) of the Act ignoring instructions contained in Board's Circular No. 1065/4/2018-CX., dated 8.6.2018, wherein at para 7 it has been asked not to issue new Show Cause Notice invoking



extended period of limitation.

6.2 I find it pertinent to examine instructions contained in Board's Circular No. 1065/4/2018-CX., dated 8-6-2018, which are reproduced as under:

"5. CENVAT Credit on GTA Services etc. : The other issue decided by Hon'ble Supreme Court in relation to place of removal is in case of *CCE & ST v. Ultra Tech Cement Ltd.*, dated 1-2-2018 in Civil Appeal No. 11261 of 2016 on the issue of CENVAT Credit on Goods Transport Agency Service availed for transport of goods from the 'place of removal' to the buyer's premises. The Apex Court has allowed the appeal filed by the Revenue and held that CENVAT Credit on Goods Transport Agency service availed for transport of goods from the place of removal to buyer's premises was not admissible for the relevant period. The Apex Court has observed that after amendment of in the definition of 'input service' under Rule 2(l) of the CENVAT Credit Rules, 2004, effective from 1-3-2008, the service is treated as input service only 'up to the place of removal'."

6. Facts to be verified : This circular only bring to the notice of the field the various judgments of Hon'ble Supreme Court which may be referred for further guidance in individual cases based on facts and circumstances of each of the case. Past cases should accordingly be decided.

7. No extended period : Any new show cause notice issued on the basis of this circular should not invoke extended period of limitation in cases where an alternate interpretation was taken by the assessee before the date of the Supreme Court judgment as the issue is in the nature of interpretation of law."

(Emphasis supplied)

7. I find that period involved in the present case is from April, 2014 to June, 2017. The Board has issued above Circular on 8.6.2018 on the basis of judgement dated 1.2.2018 passed by the Hon'ble Supreme Court in the case of *CCE Vs. Ultratech Cement Ltd* in Civil Appeal No. 11261 of 2016 filed by the Department. Apparently, when the Appellant had availed said Cenvat credit of service tax paid on outward GTA during the period from April, 2014 to June, 2017, the Hon'ble Karnataka High Court's judgement was in favour of assessee and the Appellant was justified in availing said Cenvat credit. In any case, the Board vide para 7 of above Circular has categorically asked not to issue new Show Cause Notice invoking extended period of limitation. In the present case, the Show Cause Notice was issued on 6.9.2019 by invoking extended period of limitation under Rule 14 of CCR, 2004 read with Section 11A(4) of the Act. It is settled law that Board's instructions are binding on Departmental officers. I also find that entire demand is beyond normal period of limitation. Hence, the proceedings initiated in the present case are, therefore, not legally sustainable. The adjudicating authority was accordingly wrong in confirming the demand.




8. In view of above, I set aside the confirmation of demand of Rs. 1,51,609/ vide the impugned order. Since, demand is set aside, recovery of interest and imposition of penalty of Rs. 22,741/- are also required to be set aside and I order accordingly.

9. I set aside the impugned order and allow the appeal.

10. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

10. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.


(Akhilesh Kumar)
25 May, 2021
Commissioner (Appeals)

Attested



(V.T.SHAH)

Superintendent (Appeals)

By RPAD

To, M/s Gangadhar Industries 80 Feet Road, Plot No. 997/998, Street No. 6, Aji GIDC, Rajkot.	सेवा में, मे० गंगाधर इंडस्ट्रीज़, 80 फीट रोड, प्लॉट न० 997/998, स्ट्रीट न० 6, आजी जीआईडीसी, राजकोट।
---	---

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) संयुक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट-1 मण्डल, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल।

